

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-10/15-16

(1) परिचयात्मक :-

- (क) अंकेक्षित लेखा का नाम— अंचल कार्यालय, जहानाबाद
(ख) अंकेक्षण का लेखा अवधि— वर्ष 2011-12 से 2012-13 तक।
(ग) प्रशासी विभाग का नाम— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं कार्यकाल—

1. श्री बाल मुरगन डी समाहर्ता 01.04.11 से 31.03.13 तक

- (ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम/पदनाम एवं कार्यकाल—

1. श्री प्रकाश चन्द सिंह, अंचलाधिकारी 01.04.11 से
31.03.13 तक।

2. श्री बालेश्वर चौधरी, नाजीर 01.04.11 से 31.03.13 तक।

- (च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारियों का नाम—

1. श्री विष्णु नन्दन, नाजीर

- (छ) अंकेक्षकों का नाम— 1 श्री सुरेन्द्र कुमार व० अं०-1
2 श्री नरेश कुमार व० अं०-2

- (ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि— दिनांक 09.09.14

- (झ) अंकेक्षण समाप्ति की तिथि— दिनांक 10.04.15

- (ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस—42 कार्य दिवस

- (ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(2) अंकेशन का क्षेत्र—

(क) अंकेशन का प्रकार— सामान्य।

(ख) वित्त (अंकेशन) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि— 136 दिनांक 14.12.13 एवं ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.09.06 के निहित निदेशानुसार ।

(ग) कार्यालय का कार्यक्षेत्र— इस अंचल के अन्तर्गत आने वाले जमीन आदि पर लगान निर्धारित करना एवं उसकी वसूली करना। सैरातो की नीलामी करना आदि कार्य क्षेत्र है, इस अंचल के अन्तर्गत 8 हल्का है।

(घ) वित्तीय स्रोत— आवंटन (आवंटन व्यय विवरणी संलग्न परिशिष्ट "ख" पर अंकित।) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :— शत प्रतिशत सत्यापन किया गया ।

(च) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :—

निरीक्षण प्रतिवेदन अप्रस्तुत।

(छ) वित्त (अंकेशन) विभाग के पूर्व अंकेशन प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :— अंकेशन प्रतिवेदन अप्रस्तुत।

(3) वित्तीय समीक्षा :—

(i) आवंटन की स्थिति में— क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गयी है—नहीं (शीर्ष 2029 भु0 रा0) आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 12-13 परिशिष्ट "ख" में व्यय के पश्चात् बचत राशि प्रत्यापित दिखाई गई है परन्तु संबन्धित प्रत्यार्पण पत्र अंकेशन में दिखाया नहीं गया है। प्रशासी विभाग प्रत्यापित राशि की समीक्षा कर ले। अंकेशन अवधि के 11-12 एवं 12-13 सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति निम्नवत् है।

31.03.12— 2848518=22

31.03.13— 3006490=28

उपर्युक्त संवरण शेष के जमा राशि का पूर्ण विवरण निम्नवत् है।

31.03.12 रोकड़ पुस्त की स्थिति— सामान्य रोकड़ पुस्त शेष—2848518=22 जमा का विवरण

1. एस0 बी0 आई0 जहानाबाद खाता सं0-11050100323-	544653=65
2. जी0 आई0 जी0-	631=00
3. कृषि विकास स्टेट बैंक, जहानाबाद खाता सं0-11332248808-	243988=08
4. मध्य ग्रामीण बैंक, जहानाबाद खाता संख्या-2930-	71562=22
5. पी0 एन0 बी0, जहानाबाद खाता संख्या-29106-	84711=00
6. मध्य ग्रामीण बैंक, जहानाबाद खाता संख्या-10132-	44451=66
7. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या-3221-	6921=00
8. अभिश्रव में-	1562779=69
9. पंचायत अभिश्रव-	110077=00
10. अस्थायी अग्रिम-	163769=00
11. एक ताला-	<u>14973=92</u>

कुल- 2848518=22

31.03.13 रोकड़ पुस्त की स्थिति- सामान्य रोकड़ पुस्त, एवं शेष-3006490=28 जमा का विवरण-

1. स्टेट बैंक, जहानाबाद खाता संख्या 11050100323-	537609=65
2. जी0 आई0 जी0-	631=00
3. कृषि विकास स्टेट बैंक 11332248808-	158653=08
4. मगध ग्रामीण बैंक, जहानाबाद खाता संख्या 2930-	54667=22
5. मगध ग्रामीण बैंक, जहानाबाद खाता संख्या 10132-	46256=66
6. पी0 एन0 बी0 बैंक, जहानाबाद खाता संख्या 29106-	88133=00
7. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, जहानाबाद खाता संख्या 3221-	2803=00
8. पंचायत अभिश्रव-	110077=00
9. अस्थायी अग्रिम-	163763=00
10. अभिश्रव-	<u>1843896=67</u>

कुल- 3006490=28

(ii) माँग एवं संग्रहण विवरणी लेखा वर्ष 2011-12 एवं 12-13 परिशिष्ट "ग" पर अंकित है जिसके अवलोकन के स्पष्ट होगा कि वर्ष 11-12 के कुल माँग के विरुद्ध वसूली के पश्चात दिनांक 31.03.12 तक शेष राजस्व की राशि कुल रु0 1154703=00 था, जिसे वर्ष 2012-13 के बकाया माँग में अंकित न कर कल रु0 7681201=55 दिखाया गया है। उक्त अन्तर राशि की जाँच हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान अकृष्ट किया जाता है।

रोकड़ पंजी में सम्बरण शेष या भौतिक सत्यापन की स्थिति :-

दिनांक 09.09.14 अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि का भौतिक सत्यापन किया गया, 09.09.14 का विवरण निम्नवत् है। :-

(क) नगद राशि-	62461=92
(ख) बैंक खाता में कल राशि-	2303969=61
(ग) बैंक खाता में सूद की राशि-	शून्य
(घ) अग्रिम की राशि-	154463=00 (अंकेक्षण अवधि के पूर्व का)
(ङ) असमायोजित अभिश्रव-	208850=67
(च) अन्य पंचायत अभिश्रव-	110077=00
कुल योग्य-	2839822=20

(4) अंकेक्षित अवधि के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :-

क्र०	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक/कम
1	अंचलाधिकारी	1	1	—
2	अंचल निरीक्षक	1	1	—
3	प्रधान लिपिक	1	1	—
4	लिपिक	5	4	01
5	अमीन	01	01	—
6	राजस्व कर्मचारी	15	7	08
7	जीप चालक	1	1	—
8	दफदार	8	3	05

9	चौकीदार	54	31	23
---	---------	----	----	----

भाग-2

वेतन विपत्र में अधिक योग कर निकासी एवं भुगतान के फलस्वरूप

(5) कुल 256.00 रुपया वसूली योग्य :-

(i) वेतन भुगतान पंजी वर्ष 2011-12 के जाँच क्रम पाया गया कि विपत्र संख्या 40/11-12 के अन्तर्गत वेतन भुगतान पंजी के क्रम सं० 16 पर मिथलेश कुमार अनुसेवक को माह जून 2011 के वेतन का वास्तविक योग कुल रु० 11819.00 होता है जबकि कुल योग 11834.00 रुपया अंकित कर कोषागार से निकासी एवं भुगतान किया गया है। इस प्रकार रु० 1500.00 (11834.00-11819.00) अधिक निकासी एवं भुगतान कर दिया गया है।

(ii) वर्ष 2011-12 में विपत्र 40/11-12 के अन्तर्गत जून माह के वेतन में श्री गीता कुमारी सुन्डी अनुसेवक जिसका वेतन क्रमांक 18 पर वेतन के वास्तविक योग एवं भुगतान योग राशि रु० 11266.00 होता है। जबकि कुल 11507 रुपया का गलत योग का कोषागार से निकासी एवं भुगतान किया गया। इस प्रकार रु० 241=00 (11507.00-11266.00) अधिक भुगतान किया गया है। इस प्रकार उप कंडिका (i) एवं (ii) में अंकित रु० 15.00+241.00= 256.00 अधिक निकासी एवं भुगतान किया गया है। इस संबंध में आपत्ति निर्गत की गई थी जिसमें अनुपालन में संबंधित व्यक्ति से वसूल कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित करने की बात कही गई है।

अतः संबंधित व्यक्ति से राशि वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाए।

(6) वेतन मद में कुल रु० 50.00 की अधिक निकासी एवं भुगतान वसूली योग्य :-

शीर्ष 2055 पुलिस के वेतन भुगतान वर्ष 11-12 के जाँच क्रम में पाया गया कि विपत्र सं० 30/11-12 से श्री सिद्धेश्वर पासवान चौकीदार को दिनांक 08.06.11 को वेतन मद में 12264.00 रुपया का गलत योग कर निकासी एवं भुगतान किया गया है, जबकि इनका वास्तविक वेतन का कुल योग्य 12214.00 रुपया होता है इस प्रकार 12264.00-12214.

00=50.00 का अधिक निकासी एवं भुगतान किया पाया गया आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि वसूली उपरान्त राशि कोषागार में जमा कर दी जाएगी एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जायगी।

अतः राशि वसूली उपरान्त कोषागार में जमा कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

(7) सैरात बन्दोवस्ती राशि रु कुल 1850.00 जमा नहीं वसूली योग्य :-

सैरात ताड़ से ताड़ी चुलाने हेतु ताड़ की बन्दोवस्ती का संचिका के जाँच क्रम में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में अभिलेख सं० 2/11-12 ताड़ से ताड़ी चुलाने हेतु श्री छोटु चौधरी पिता स्व० काली चौधरी ग्र०- मखदुमपुर ऊँटा जहानाबाद द्वारा दिनांक 02.05.11 को 3200.00 रुपया में ताड़ का पेड़ की बन्दोवस्ती डाक लिया गया। जिसमें से मात्र रु० 1350.00 कर ही भुगतान एवं जमा किया गया। शेष राशि 1850.00 आज तक वसूली हेतु लम्बित है। अंचलाधिकारी द्वारा भी जमा करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक बकाया राशि जमा नहीं किया गया। संबंधित व्यक्ति से राशि वसूली कर कोषागार में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को फलाफल से अवगत कराया जाय।

(8) रुपया 1400.00 अधिक भुगतान एवं अंकित व्यय वसूली योग्य :-

(i) शीर्ष 2029 के अभिश्रवो के जाँच क्रम में पाया गया कि अभिश्रव सं० 8292 द्वारा गाड़ी सं० 70 बी० आर० 25 पी/6304 के लिए 18 लीटर डीजल बिन्दवासनी फ्यूल स्टेशन जहानाबाद से क्रय किया गया है जिसका विपत्र सं० 161/12-13 से दिनांक 31.03.13 को 1000.00 रुपया का भुगतान एवं व्यय अंकित किया गया है। अभिश्रव की जाँच में पाया गया कि डी० डी० ओ० द्वारा रु० 1000.00 के विरुद्ध 950.00 रुपया ही पारित किया गया था। अतः रोकड़ पुस्त में $1000-950=50.00$ रुपया अधिक व्यय अंकित किया गया है।

(ii) शीर्ष 2029 के अभिश्रवों के जाँच क्रम में पाया कि अभिश्रव सं० 8130 आलोक प्रिंटिंग प्रेस मेन रोड जहानाबाद से सेन्चुरी पैकेट 20 अदद दर 160 कुल रु० 3200.00 एवं 590 वैंट की राशि 160 कुल $3200+160=3360$ जो कि डी० डी० ओ० द्वारा राशि पारित किया गया है जबकि विपत्र सं० 101/12-13 दिनांक 06.01.13 को 3660.00 रुपया की प्रविष्टि व्यय पक्ष में

कर दी गई है। इस प्रकार रू0 300.00 (3660–3360) अधिक व्यय अंकित किया गया है जो दोषी व्यक्ति के वसूल कर आय पक्ष में अंकित करने का सुझाव दिया जाता है।

(iii) अभिश्रव की पारित एवं वास्तविक राशि से रू0 350.00 व्यय पक्ष में अधिक प्रविष्ट।

शीर्ष 2029 के अभिश्रवों के जाँच क्रम में पाया गया कि अभिश्रव सं0 8020 दिनांक 19.10.12 शीसकॉन कम्प्यूटर सिस्टम फिदा हुसैन जहानाबाद से 450 की दर से। यू0 एस0 वी0 माउस खरीदा गया था जिसमें डी0 डी0 ओ0 द्वारा 450 रूपया पारित किया गया है जबकि विपत्र सं0 100/12–13 के विरुद्ध दिनांक 16.01.13 को व्यय पक्ष में 800.00 रूपया अंकित किया गया। इस प्रकार रू0 350.00 (800–450) अधिक व्यय अंकित किया गया।

(iv) अभिश्रव की वास्तविक राशि के रू0 700.00 व्यय पक्ष में अधिक प्रविष्ट :-

शीर्ष 2029 के अभिश्रवों के जाँच क्रम में पाया गया कि अभिश्रव सं0 1019 दिनांक 19.10.12 को सिलिकॉन कम्प्यूटर सिस्टम फिदा हुसैन जहानाबाद के यू0 पी0 एस0 का समान खरीदा गया था जिसका कीमत रू0 800.00 था तथा डी0 डी0 ओ0 द्वारा 800 रूपया पारित किया गया। जबकि विपत्र सं0 100/12–13 के विरुद्ध दिनांक 16.01.13 को 1500.00 रूपया व्यय पक्ष में प्रविष्ट कर दी गई है। अतः $(1500-800)=700.00$ अधिक व्यय दिखाया गया है। आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि राशि वसूल कर जमा कर दी जाएगी। अतः संबंधित व्यक्ति से राशि वसूल कर जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाय। अतः कुल $रू0\ 50.00+300.00+350.00+700.00=1400.00$ रूपया वसूल कर संबंधित कोष में जमा कराया जाए एवं अनुपालन के वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाए।

(9) रू0 47460.00 ईंधन एवं मरम्मती पर व्यय आपत्तिअर्न्तगत :-

शीर्ष 2029 के अन्तर्गत वाहन रख रखाव मद में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध व्यय की जाँच वर्ष 12–13 में पाया गया कि इस मद की राशि को कोषागार से निकासी कर डीजल मद में खर्च किया गया है परन्तु अंकेक्षण में गाड़ियों का लॉग बुक एवं हिस्ट्री बुक प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह पता नहीं चल सका कि तेल का खर्च गाड़ी के लिए या किसी दूसरे काम के लिए किया गया स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, इसका क्या प्रमोजन था आपत्ति के

अनुपालन में कहा गया कि गाड़ी चोरी हो गई है उसी में गाड़ी का लॉग बुक रखी हुई थी जो मान्य नहीं है।

अतः संबंधित अभिलेखों के (लॉग बुक इतिहास पुस्तिका) के अनुपलब्ध रहने फलस्वरूप कुल रू0 47460.00 ईधन पर व्यय किया गया जिसकी वास्तविकता की जाँच नहीं की जा सकी। पूर्ण विवरणी परिशिष्ट "घ" अंकित है।

उपरोक्त व्यय राशि रू0 47460.00 की जाँच एवं समीक्षा संगत अभिलेखों के आधार पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा करायी जाए तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(10) रूपया 15812.00 का व्यय से सम्बंधित अभिश्रव आपत्ति अन्तर्गत :-

वर्ष 12-13 के शीर्ष 2029 रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष की जाँच क्रम में पाया गया कि विभिन्न विपत्र से कोषागार से राशि निकाल कर विभिन्न एजेन्सियों को भुगतान किया गया है। जिसकी प्रविष्टि रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में की गयी थी अंकेक्षण में कुछ भुगतान से संबंधित अभिश्रवों को उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे वास्तविक भुगतान की स्थिति एवं औचित्य की जाँच नहीं की सकी। आपत्ति के अनुपालन में कह गया कि अभिश्रव की खोज बीन किया जा रहा है। आपत्ति का अनुपालन संतोषप्रद नहीं है।

अतः संबंधित अभिश्रव एवं अभिलेखों के अनुपलब्ध रहने फलस्वरूप कुल रू0 15812.00 व्यय किया गया राशि आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है। विवरण परिशिष्ट (ड) पर संलग्न है।

उपरोक्त व्यय राशि 15812.00 की जाँच एवं समीक्षा संगत अभिलेखों के आधार पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा करायी जाय तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए।

(11) रूपया 16652.00 सूद की राशि कोषागार में जमा करने का सुझाव-

सूद पंजी के जाँच में पाया कि विभिन्न बैंक द्वारा दी गई सूद की राशि रोकड़ पुस्त में दिनांक 31.03.13 तक कुल रू0 16652.00 रखी हुई है, जबकि इसे कोषागार में जमा कर देना था। आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि राशि जमा करने की कारवाई की जा रही है।

अतः इसे जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी सूचित किया जाए।

(12) रूपया 666572=52 पैसा अव्यवहत राशि कोषागार किये जोन का सुझाव :-

विभिन्न सहायक रोकड़ पुस्त के जाँच क्रम में पाया गया कि वर्ष 11-12 एवं 12-13 के पूर्व की अवधि से आज तक (31.03.13 तक) कुल रू0 666572.52 पैसा अव्यवहत रूप से पड़ी हुई है जिसका व्यय नहीं किया जा सकता है। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि राशि कोषागार में जमा कर दिया जाएगा।

अतः राशि रू0 666572.52 कोषागार में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जाए। पूर्ण विवरणी परिशिष्ट "च" पर संलग्न है।

(13) राजस्व माँग के अनुरूप वसूली कम निराशजनक :-

वर्ष 11-12 एवं 12-13 के माल गुजारी भाड़ा वसूली विवरणी (रिटर्न 1) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि किसी भी वर्ष में माँग के अनुरूप संतोष जनक वसूली नहीं हुआ विशेषकर वर्ष 12-13 के माँग के अनुसार वसूली कम (नगण्य) है। विवरणी निम्नवत् है।

वर्ष	माँग	वसूली राशि	शेष वसूली	वसूली प्रतिशत
2011-12	1402084.00	1154703.00	247381.24	82.35
2012-13	8197915.00	1606458.00	6591157.00	19.59

इस प्रकार वर्ष 11-12 में 82.35 प्रतिशत एवं 12-13 में सिर्फ 19.59 प्रतिशत ही वसूल हो पाई है।

अतः उच्चधिकारी को ध्यान आकृष्ट किया जाता है विशेष अभियान चलाकर राशि को वसूली किया जाय और इसका फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(14) रूपया 1843896.00 असामायोजित अभिश्रव को समायोजन किया जाए :-

अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 09.09.14 के संवरण शेष के जाँच क्रम में पाया कि असामायोजित अभिश्रव के रूप में एक बड़ी राशि रू0 2088503.67 पैसा पड़ी हुई है। जिसमें से अंकेक्षण अवधि दिनांक 31.03.13 तक असामायोजित अभिश्रव के रूप में रू0

1843896.00 लम्बित था। शेष राशि अगले वित्तीय वर्ष का है। सुझाव दिया जाता है कि आवश्यक जाँचोपरान्त उच्चाधिकारी आवंटन माँग कर राशि का समायोजन कर ले और प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी सूचित करें।

मिलान एवं शुद्धिकर्ता

शिव नाथ कुमार प्रसाद

Santa
8/10/15

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

परिशिष्ट "क" कंडिका- 1 'ट' से संबंधित

(1) प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

1. सामान्य रोकड़ पुस्त-	11-12 से 12-13
2. सहायक रोकड़ पुस्त (सभी शीर्षों का)-	11-12 से 12-13
3. वेतन भुगतान पंजी-	11-12 से 12-13
4. विपत्र पंजी-	11-12 से 12-13
5. अग्रिम पंजी-	11-12 से 12-13
6. अभिश्रव पंजी-	11-12 से 12-13
7. रेमीटेन्स पंजी-	11-12 से 12-13
8. सैरात पंजी-	11-12 से 12-13
9. भण्डार पंजी-	11-12 से 12-13
10. आकास्मिक पंजी-	11-12 से 12-13
11. नाजीर रसीद-	11-12 से 12-13
12. सैरात केशरेकर्ड-	11-12 से 12-13
13. सभी हल्का का रेन्ट रसीद-	11-12 से 12-13
14. सभी हल्का का रेन्ट कैश बुक-	11-12 से 12-13
15. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी-	11-12 से 12-13

अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

- (1) गाड़ी का लॉग बुक- 11-12 से 12-13
- (2) गाड़ी का हिस्ट्री बुक- 11-12 से 12-13
- (3) आंशिक अभिश्रव- 11-12 से 12-13
- (4) लगान मांग पंजी- 11-12 से 12-13
- (5) महालेखाकार पूर्व का निरिक्षण प्रतिवेदन
- (6) वित्त (अंकक्षण) विभाग से पूर्व का अंकक्षण प्रतिवेदन
- (7) हल्का न0 1 भाग (क) वर्ष 12-13 (आंशिक)

परिशिष्ट (ख) कंडिका- 02 "घ" एवं "ङ" से सम्बंधित

शीर्ष 2029 भु0 रा0 वर्ष 2011-12

मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय की राशि	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
वेतन मद में एवं मंहगाई भत्ता	6883282=00	6710876	172406=00	ज्ञापांक-438 दिनांक-31.08.12
यात्रा भत्ता मद में	6000=00	—	6000=00	तदैव
कार्यालय व्यय मद में	21000=00	13000=00	8000=00	तदैव
वर्दी मद में	5000=00	5000=00	शुन्य	
वाहन एवं इंधन रख-रखाव मद में।	2500=00	2500=00	शुन्य	
बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम मद में	52000=00	52000=00	शुन्य	

वर्ष 12-13 का आवंटन व्यय स्थिति

शीर्ष 2029 - वर्ष 2012-13

	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय राशि	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
वित्तिय वर्ष 2012-13	वेतन+मंहगाई भत्ता मद	68,70,000=00	68,61,148=00	8,852=00	प्रत्यार्पण पत्र अनुपलब्ध
	यात्रा भत्ता मद	6,000=00	—	6,000=00	
	कार्यालय व्यय मद में	33,000=00	33,000=00	शून्य	
	वर्दी मद में	5,000=00	5,000=00	शून्य	
	वाहन एवं इंधन मद में	85,000=00	84,994=00	06	
	बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम मद में	2,22,000=00	2,21,325=00	675=00	
	योग—	72,21,000=00	72,05,467=00	15,533=00	

परिशिष्ट (ग) कंडिका- 03 (ii) से सम्बंधित

रिटर्न (i) माँग एवं संग्रहण विवरणी वर्ष 2011-12

क्र० सं०	माँग का प्रकार	माँग वर्ष 2011-12			वसूली वर्ष 2011-12		
		बकाया	ह्रास	योग	बकाया	ह्रास	योग
1	रेन्ट	260264.55	32528.69	292793.24	253575.00	31640.00	285215.00
2	सेस	108518.15	68596.85	177115.00	82136.70	56241.30	138378.00
3	शिक्षा सेस	219138.78	135093.22	354232.00	152337.40	122966.60	275304.00
4	स्वास्थ्य सेस	219138.78	135093.22	354232.00	148535.40	122966.60	271502.00
5	कृषि सेस	100390.53	54301.47	154692.00	71787.00	43497.00	115284.00
6	कुल	907450.79	425613.45	1333064.24	708371.50	377311.50	1085683.00
7	सूद	27610.00	—	27610.00	27610.00	—	27610.00
8	कुल	935060.79	425613.45	1360674.24	7359815.50	377311.50	1113293.00
9	सैरात	—	41410.00	41410.00	—	41410.00	41410.00
10	कुल योग—	935060.79	467023.45	1402084.24	7359815.50	418721.50	1154703.00

वसूली का प्रतिशत—81.81%

परिशिष्ट (ग) कंडिका- 03 (i) से सम्बंधित

रिटर्न (i) माँग एवं संग्रहण विवरणी 2012-13

क्र० सं०	माँग का प्रकार	माँग वर्ष 2012-13			वसूली वर्ष 2012-13			बकाया राजस्व राशि		
		बकाया	चालू	योग	बकाया	चालू	योग	बकाया	चालू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रेन्ट	1871058.31	32528.69	1903587.00	398496.00	31771.00	430267.00	1472562.31	757.69	1473320.00
2	सेस	974686.15	68596.85	1043283.00	152515.00	35076.00	187591.00	822171.15	33520.85	855692.00
3	शिक्षा सेस	1951472.78	135093.22	2086566.00	270291.00	70152.00	340443.00	1681181.78	64941.22	1746123.00
4	स्वास्थ्य सेस	1951472.78	135093.22	2086566.00	279873.00	70232.00	350105.00	1671599.78	64861.22	1736461.00
5	कृषि सेस	868256.53	54301.47	922558.00	114534.00	28463.00	142997.00	753722.53	25838.47	779561.00
6	योग	7616946.55	425613.45	8042560.00	1215709.00	235694.00	1451403.00	6401237.55	189919.45	6591157.00
7	सूद	64255.00	—	64255.00	64255.00	—	64255.00	—	—	—
8	योग	7681201.55	425613.45	8106815.00	1279964.00	235694.00	1515658.00	6401237.55	189919.45	6591157.00
9	सैरात	—	47800.00	47800.00	—	47800.00	47800.00	—	—	—
10	योग	7681201.55	473413.45	8154615.00	1279964.00	283494.00	1563458.00	6401237.55	189919.45	6591157.00
11	अमीन	—	41500.00	41500.00	—	41500.00	41500.00	—	—	—
12	योग	7681201.55	514913.45	8196155.00	1279964.00	324994.00	1604958.00	6401237.55	189919.45	6591157.00
13	विविध	—	1500.00	1500.00	2559928.00	1500.00	1500.00	—	—	—

14	कुल योग	7681201.55	516413.45	8197615.00	3839892.00	326494.00	1606458.00	6401237.55	189919.45	6591157.00
----	---------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

वसूली का प्रतिशित 18.69%

परिशिष्ट "घ" कंडिका- 09 से सम्बंधित

गाड़ी पर व्यय कुल रु0 46,974=00 की विवरणी

क्र० सं०	अभिध्रव सं०	भुगतान संस्था का नाम	वित्र सं० / भुगतान तिथि	भुगतान राशि
1	7896	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	474=00
2	7897	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	475=00
3	7903	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	460=00
4	7905	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	480=00
5	7906	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	460=00
6	7918	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	700=00
7	7962	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	480=00
8	7893	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	460=00
9	7850	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	475=00
10	7860	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	440=00
11	7859	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	220=00
12	7861	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	479=00
13	7869	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	440=00
14	7865	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	220=00
15	7866	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	440=00
16	7873	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	498=00
17	7876	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	460=00
18	7875	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	460=00
19	7884	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	440=00
20	7882	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	470=00
21	7881	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	460=00

22	7827	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	479=00
23	7896	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	440=00
24	7899	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	475=00
25	7903	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	460=00
26	7906	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	480=00
27	79018	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	700=00
28	7905	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	480=00
29	7801	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	460=00
30	7806	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	230=00
31	7807	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	435=00
32	7808	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	440=00
33	7793	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	232=00
34	7792	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	440=00
35	7791	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	220=00
36	7789	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	448=00
37	7774	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	440=00
38	7775	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	440=00
39	7785	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	434=00
40	7780	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	440=00
41	7798	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	460=00
42	7789	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	435=00
43	7992	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	150=00
44	7897	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	474=00
45	7892	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	480=00
46	7891	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि0 17.10.12	480=00

47	7890	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	480=00
48	7887	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	500=00
49	7987	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	520=00
50	7982	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	73 / 12-13, दि० 17.10.12	520=00
51	7527	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	100 / 12-13, दि० 16.01.13	652=00
52	7599	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	100 / 12-13, दि० 16.01.13	435=00
53	7747	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	100 / 12-13, दि० 16.01.13	479=00
54	7764	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	100 / 12-13, दि० 16.01.13	479=00
55	7763	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	100 / 12-13, दि० 16.01.13	440=00
56	7870	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	100 / 12-13, दि० 16.01.13	478=00
57	7862	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	100 / 12-13, दि० 16.01.13	478=00
58	7835	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	100 / 12-13, दि० 16.01.13	220=00
59	7870	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	100 / 12-13, दि० 16.01.13	478=00
60	7862	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	100 / 12-13, दि० 16.01.13	478=00
61	7885	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	100 / 12-13, दि० 16.01.13	220=00
62	8072	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि० 16.01.13	520=00
63	8123	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि० 16.01.13	400=00
64	8134	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि० 16.01.13	520=00
65	8132	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि० 16.01.13	520=00
66	8128	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि० 16.01.13	520=00
67	8129	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि० 16.01.13	520=00
68	8077	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि० 16.01.13	520=00
69	8082	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि० 16.01.13	528=00
70	8085	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि० 16.01.13	520=00
71	8088	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि० 16.01.13	520=00

72	8092	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	400=00
73	8094	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	500=00
74	8096	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	220=00
75	8098	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
76	8103	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
77	8108	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
78	7992	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
79	7993	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
80	7995	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
81	7997	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
82	7999	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
83	8000	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
84	8003	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
85	8004	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
86	8007	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
87	8008	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
88	8010	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
89	8011	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
90	8012	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
91	8013	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
92	8201	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	101 / 12-13, दि0 16.01.13	520=00
93	8220	भारथु ऑटो सर्विस जहानाबाद	86 / 12-13, दि0 31.03.13	1000=00
94	8191	भारथु ऑटो सर्विस जहानाबाद	86 / 12-13, दि0 31.03.13	1000=00

95	8127	भारत पेट्रोलियम, जहानाबाद	86 / 12-13, दि० 31.03.13	500=00
96	8095	भारथु ऑटो सर्विस जहानाबाद	86 / 12-13, दि० 31.03.13	1000=00
97	8094	भारथु ऑटो सर्विस जहानाबाद	86 / 12-13, दि० 31.03.13	1000=00
98	8241	भारथु ऑटो सर्विस जहानाबाद	86 / 12-13, दि० 31.03.13	400=00
			कुल योग-	47460=00

कंडिका- 10 से सम्बंधित

व्यय से सम्बंधित कुल रू0 15812=00 का अभिश्रव अनुपलब्ध आपत्ति अर्न्तगत-

क्र0 सं0	अभिश्रव संख्या	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	विपत्र सं0 एवं भुगतान तिथि	भुगतान राशि
1	7589	डी0 जी0 मेन्स पी0 जी0 रोड जहानाबाद	128 / 11-12 दि0 30.03.12	700=00
2	7597	श्याम इन्टर प्राइजेज जहानाबाद		40=00
3	7402	डी0 जी0 मेन्स पी0 जी0 रोड जहानाबाद	126 / 11-12 दि0 30.03.12	3500=00
4	7496	डी0 जी0 मेन्स पी0 जी0 रोड जहानाबाद	126 / 11-12 दि0 30.03.12	700=00
5	7497	डी0 जी0 मेन्स पी0 जी0 रोड जहानाबाद	161 / 11-12 दि0 30.03.12	700=00
6	7530	दिनानाथ विश्वकर्मा स्व0 जेनहर मिस्त्री	161 / 11-12 दि0 30.03.12	300=00
7	7581	विजय पुस्तक भंडार	161 / 11-12 दि0 30.03.12	1540=00
8	7594	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	161 / 11-12 दि0 30.03.12	220=00
9	7599	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	161 / 11-12 दि0 30.03.12	435=00
10	7598	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	161 / 11-12 दि0 30.03.12	450=00
11	7612	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	161 / 11-12 दि0 30.03.12	434=00
12	7611	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	161 / 11-12 दि0 30.03.12	450=00
13	7663	डी0 जी0 मेन्स पी0 जी0 रोड जहानाबाद	161 / 11-12 दि0 30.03.12	700=00
14	7699	भारथु ऑटो सर्विस इरकी	161 / 11-12 दि0 30.03.12	218=00
15	7998	इंटर नेशनल हट डिपो	161 / 11-12 दि0 30.03.12	298=00

		जहानाबाद		
16	7700	सिसिकॉन सेन्टर फिदा हुसैन	161 / 11-12 दि० 30.03.12	3727=00
17	8094	भारथु ऑटो सर्विस जहानाबाद	161 / 11-12 दि० 30.03.12	500=00
18	8086	शंकर एड कंपनी जहानाबाद	161 / 11-12 दि० 30.03.12	500=00
19	8241	भारथु ऑटो सर्विस जहानाबाद	161 / 11-12 दि० 30.03.12	400=00
			कुल-	15812=00

परिशिष्ट "च" कंडिका- 12 से सम्बंधित

दिनांक 31.03.13 के संवरण शेष में अंकित

क्र० सं०		
1	शीर्ष 705 कृषि	7403=78
2	शीर्ष 306 लघु सिचाई	981=00
3	अस्थाई अग्रिम	200=00
4	मनी लेण्डर पंजी	875=00
5	इंदिरा आवास	650192=74
6	शीर्ष 2055 जी० ए० 256	6920=00
	कुल योग-	666572.52